

Hindi 8th

ख. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. महाराज के पुलकित होने का क्या कारण था?
2. पाठ से मछुआरों के विषय में क्या जानकारी मिलती है?
3. महाराज की सेना मछुआरों को नहीं हरा सकी। क्यों?
4. पाठ के आधार पर उदयगिरि महाराज की चारित्रिक विशेषताएँ लिखिए।
5. निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए—
(क) यह कामना की हठ्टी है महाराज! इसकी प्यास सदा बढ़ती है, कभी बुझती नहीं।
(ख) याचक की प्रार्थना भले ही छोटी हो, पर दानी के दान में उदारता होनी चाहिए।

ग. वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs)

सही विकल्प पर (✓) का चिह्न लगाइए—

1. महाराज की आँखें अब भी अटकी हुई थी—
(क) एक सैनिक पर ☐ (ख) क्षितिज पर ☐ (ग) दरवाजे पर ☐
2. महाराज की सेना _____ पार करके नगर की दीवारों तक पहुँची।
(क) झील ☐ (ख) नदी ☐ (ग) मछुआरों के घरों को ☐
3. मुझे इस हठ्टी के खजन के बराबर _____ दे दिया जाए।
(क) भोजन ☐ (ख) चाँदी ☐ (ग) सोना ☐

घ. गद्यांश (Prose)

English 8th

D. Answer the following questions :

1. What was the time at night?
2. Who could not leave New York?
3. For how much time did the policeman wait?
4. What was mentioned in the note?



GRAMMAR FUN

Idiomatic Expressions

E. Fill in the blanks, using the idiomatic expressions given below:

cats and dogs, pass away, give away, give up, hue and cry

1. My neighbour raised a _____ when he saw the thieves in his house.
2. As soon as I reached the bus-stand, it began to rain _____.
3. My uncle has _____ the bad habit of smoking.
4. The patient _____ last night.
5. The chief guest _____ the prizes to the players.

F. Conditional Clauses:

Clauses

An adverb clause of condition mentions the condition imposed on the action of the verb in the clause. The group of words which contains this condition is known as **conditional clause**. For example, **If you study hard, you will get very good marks.**

Now complete the following sentences:

1. If you come late, _____.
2. If it rains, _____.
3. If I make a promise, _____.
4. If you eat too much, _____.
5. If I were the Prime Minister, _____.
6. If you make a noise, _____.

G. Change the gender:

Gender

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Prince _____ | 2. Wife _____ |
| 3. Sister _____ | 4. Lion _____ |
| 5. Father _____ | 6. Horse _____ |
| 7. King _____ | 8. Bitch _____ |



VOCABULARY

Words Fun

H. Fill in the blanks with the words given in the box :

bravely, fast, upward, brightly, frequently, badly, directly, doubtfully

1. "Is that you, Bob?" he asked _____.
2. He went _____ to the waiting man.
3. He _____ visits us.

4. Find the value of following, using identity :

(a) $49x^2 + 70xy + 25y^2$, when $x = 1, y = 2$

(c) $16a^2 - 48ab + 36b^2$, when $a = 1, b = -2$

(b) $81x^2 + 54xy + 9y^2$, when $x = -2, y = 3$

(d) $25b^2 - 40ba + 16a^2$, when $a = 3, b = -4$

5. Simplify :

(a) $(7m - 8n)^2 + (7m + 8n)^2$

(c) $(ab + bc)^2 - (ab - bc)^2$

(e) $(4pq + 3q)^2 - (4pq - 3q)^2$

(g) $(2.5p - 1.5q)^2 - (2.5p + 1.5q)^2$

(i) $(a - b)(a + b) + (b - c)(b + c) + (c - a)(c + a)$

(j) $(x^2 + y^2)(x^2 - y^2) + (y^2 + z^2)(y^2 - z^2) + (z^2 + x^2)(z^2 - x^2)$

(b) $(2x + 7)^2 - (2x - 7)^2$

(d) $(m^2 - n^2)^2 + 2m^2n^2$

(f) $(m^2n - 6p)^2 + 24m^2np$

(h) $\left(\frac{5}{2}mn - p\right)^2 + \left(\frac{5}{2}mn + p\right)^2$

6. Evaluate, using suitable identity :

(a) 53×58

(b) 106×108

(c) 204×207

(d) $(102)^2$

(e) $(98)^2$

(f) $(205)^2$

(g) $(5.2)^2$

(h) $(8.9)^2$

(i) $(600.5)^2$

(j) $52^2 - 51^2$

(k) $153^2 - 53^2$

(l) $12.1^2 - 8.9^2$

7. If $x + \frac{1}{x} = 3$, find the value of :

(a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(b) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

8. If $x - \frac{1}{x} = 5$, find the value of :

(a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$

(b) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

9. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 47$, find the value of $\left(x + \frac{1}{x}\right)$.

10. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 83$, find the value of $\left(x - \frac{1}{x}\right)$.

SCIENCE 8th

D. Short Answer Type Questions :

1. What is meant by chemical effect of current?
2. What do you mean by non-electrolyte? Name two non-electrolyte.
3. What are electrodes?
4. Explain why, iron objects are electroplated in the chromium?
5. What do you mean by magnetic effect of current?

